

Pavas Semester Examination 2024-25

Paper Code: GF5P61

Paper Title: Book Keeping for Accounts

No supplementary answer book will be provided

Max. Marks: 100

Time: 03 Hrs.

Part No.	Q. No.	Question in Hindi/ English
		(Attempt All Questions. Answer Every question in 15 words) (10*2) (सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 15 शब्दों में दें।)
1.	i.	Define book-keeping. बुक कीपिंग की परिभाषा दें।
	ii.	What is the objective of book-keeping? बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या है?
	iii.	Name two types of accounts. दो प्रकार के खातों के नाम बताएं।
	iv.	What is a ledger? लेजर क्या है?
	v.	Define a trial balance. ट्रायल बैलेंस की परिभाषा दें।
	vi.	What is an error of omission? चूक की त्रुटि क्या है?
	vii.	Name one basic accounting principle. एक बुनियादी लेखांकन सिद्धांत का नाम बताएं।
	viii.	What is a profit and loss account? लाभ और हानि खाता क्या है?
	ix.	What does a balance sheet show? बैलेंस शीट क्या दर्शाती है?
	x.	Define a receipt and payment account. रसीद और भुगतान खाता की परिभाषा दें।
		(Attempt All Questions. Answer Every question in 50 words) (5*4) (सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दें।)
2.	i.	Explain the scope of bookkeeping. बुक कीपिंग के क्षेत्र का वर्णन करें।

	ii.	Describe the importance of subsidiary books. सहायक पुस्तकों का महत्व बताएं।
	iii.	What are the types of accounting entries? लेखांकन प्रविष्टियों के प्रकार क्या हैं?
	iv.	How is a bank reconciliation statement prepared? बैंक सुलह विवरण कैसे तैयार किया जाता है?
	v.	Discuss the difference between real and nominal accounts. वास्तविक और सांकेतिक खातों के बीच का अंतर बताएं।
		(Attempt All Questions. Answer Every question in 100 words) (4*5) (सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों में दें।)
3.	i.	Explain the concept of adjustment entries in final accounts. अंतिम खातों में समायोजन प्रविष्टियों की अवधारणा को समझाएं।
	ii.	Describe the process of rectifying errors. त्रुटियों को ठीक करने की प्रक्रिया बताएं।
	iii.	Explain the purpose of the income and expenditure account in non-profit entities. गैर-लाभकारी संस्थाओं में आय और व्यय खाता का उद्देश्य क्या है?
	iv.	What are accounting conventions? Give examples. लेखांकन परंपराएं क्या हैं? उदाहरण दें।
		(Attempt Any 2 Questions. Answer Every question in 300 words) (2*10) (किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 300 शब्दों में दें।)
4	A business makes the following transactions during a month. Prepare the corresponding ledger accounts for "Cash" and "Sales": - January 1: Started business with ₹50,000 cash. - January 5: Sold goods for cash ₹10,000. - January 10: Purchased office supplies for cash ₹2,000. - January 15: Paid rent for the month ₹5,000. - January 20: Sold goods for cash ₹15,000. एक व्यवसाय महीने के दौरान निम्नलिखित लेनदेन करता है। "नकद" और "बिक्री" के लिए संबंधित लेजर खाते तैयार करें: 1 जनवरी: ₹50,000 नकद से व्यवसाय शुरू किया। 5 जनवरी: ₹10,000 के लिए नकद में माल बेचा। 10 जनवरी: ₹2,000 के लिए कार्यालय आपूर्ति नकद में खरीदी। 15 जनवरी: महीने के लिए ₹5,000 किराया दिया।	
	i.	20 जनवरी: ₹15,000 के लिए नकद में माल बेचा।
	ii.	Explain the process of preparing a trial balance and its significance. ट्रायल बैलेंस तैयार करने की प्रक्रिया और इसके महत्व को समझाएं।
	iii.	Describe the role of subsidiary books in accounting with examples. लेखांकन में सहायक पुस्तकों की भूमिका का उदाहरण सहित वर्णन करें।

(Attempt Any 1 Question. Answer the question in 500 words)

(1*20)

(किसी भी एक प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में दें।)

i.

Explain the difference between the receipt and payment account and the income and expenditure account.

रसीद और भुगतान खाता और आय और व्यय खाता के बीच का अंतर समझाएं।

Given the following trial balance of XYZ Traders as of March 31, 2024, prepare the Trading Account, Profit and Loss Account, and Balance Sheet:

31 मार्च, 2024 को XYZ ट्रेडर्स की निम्नलिखित ट्रायल बैलेंस दी गई है, ट्रेडिंग खाता, लाभ और हानि खाता, और बैलेंस शीट तैयार करें:

Trial Balance:

Capital: पूंजी:	₹1,50,000
Purchases: खरीद:	₹2,00,000
Sales: बिक्री:	₹3,50,000
Opening Stock: प्रारंभिक स्टॉक:	₹50,000
Carriage Inwards: कैरिज इनवर्ड:	₹5,000
Salaries: वेतन:	₹30,000
Rent: किराया:	₹20,000
Debtors: देनदार:	₹40,000
Creditors: लेनदार:	₹35,000
Cash in Hand: नकद हाथ में:	₹10,000
Furniture: फर्नीचर:	₹15,000
Building: भवन:	₹1,00,000

Adjustment Entries:

समायोजन प्रविष्टियाँ:

- ❖ Closing stock valued at ₹70,000.
- ❖ समापन स्टॉक की मूल्यांकन ₹70,000।
- ❖ Outstanding salaries ₹5,000.
- ❖ बकाया वेतन ₹5,000।
- ❖ Depreciation on building at 5% p.a.
- ❖ भवन पर वार्षिक 5% की दर से मूल्यहास।

5.

Pavas Semester Examination 2023-24

Paper Code: GF5P61

Paper Title: **Book Keeping for Accounts**

No supplementary answer book will be provided

Max. Marks: 100

Time: 03 Hrs.

Part No.	Q. No.	Question in Hindi/ English
		(Attempt All Questions. Answer Every question in 15 words) (10*2) (सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 15 शब्दों में दें।)
1.	i.	Define Journal. जर्नल को परिभाषित करें।
	ii.	What are the methods of Accounting System? लेखांकन प्रणाली की विधियाँ क्या हैं?
	iii.	Define Accountancy. लेखाशास्त्र को परिभाषित करें।
	iv.	What is meant by Drawings? आहरन से क्या तात्पर्य है?
	v.	What do you mean by Revenue Expenditure? राजस्व व्यय से आपका क्या अभिप्राय है?
	vi.	What is the meaning of Combined Entry? संयुक्त प्रविष्टि का क्या अर्थ है?
	vii.	What is meant by Petty Cash Book? छोटी नकदी बही का क्या अर्थ है?
	viii.	Why is Bank Reconciliation Statement prepared? बैंक समाधान विवरण क्यों तैयार किया जाता है?
	ix.	Define Monetary Transaction's. मौद्रिक लेन-देन को परिभाषित करें।
	x.	What do you mean by Trial Balance? तलपट से आपका क्या अभिप्राय है?

(Attempt All Questions. Answer Every question in 50 words) (सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दें।)			(5*4)
2.	i.	Write the basic features of Book-keeping. बहीखाता की बुनियादी विशेषताएँ लिखें।	
	ii.	What is the importance of Final Accounts? अंतिम खातों का क्या महत्व है?	
	iii.	Write a short note on "Prepaid Expenses". "पूर्वदत्त व्यय" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।	
	iv.	What do you mean by Income and Expenditure Account? आय और व्यय खाते से आपका क्या अभिप्राय है?	
	v.	Write a short note on "Revenue Receipt and Capital Receipt". "राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।	
(Attempt All Questions. Answer Every question in 100 words) (सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों में दें।)			(4*5)
3.	i.	Write a note on "Suspense Account". "सस्पेंस अकाउंट" पर एक नोट लिखें।	
	ii.	Write a short note on "Contingent Liabilities". "आकस्मिक देयताओं" पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।	
	iii.	What are the objectives of Book-keeping? बहीखाता रखने के उद्देश्य क्या हैं?	
	iv.	Explain the qualitative characteristics of accounting information. लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताओं की व्याख्या करें।	
(Attempt Any 2 Questions. Answer Every question in 300 words) (किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 300 शब्दों में दें।)			(2*10)
4	i.	Briefly explain the differences between Book-Keeping and Accountancy. बहीखाता एवं लेखाशास्त्र के बीच अंतर को संक्षेप में समझाएँ।	
	ii.	What do you mean by Subsidiary Books? Briefly explain important Subsidiary Books. सहायक पुस्तकों से आपका क्या अभिप्राय है? महत्वपूर्ण सहायक पुस्तकों को संक्षेप में समझाएँ।	
	iii.	Describe the reasons for difference between Cash Book balance and Pass Book balance. कैश बुक शेष और पास बुक शेष के बीच अंतर के कारणों का वर्णन करें।	

(Attempt Any 1 Question. Answer the question in 500 words)
(किसी भी एक प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में दें।)

(1*20)

5.	i.	Journalise the following transactions in the books of Narendra General Stores. 1. Narendra commenced business with Cash ` 80,000</li> <li>2. Purchased goods from Kiran ` 40,000 on credit 3. Paid rent ` 2,000</li> <li>4. Sold goods to Mr. Vikas ` 55,000 on credit 5. Purchased Furniture of ` 30,000 @ GST 18%</li> <li>6. Received a Bearer Cheque of ` 25,000 from Mr. Vikas 7. Paid to Kiran by Cheque of Dena Bank ` 20,000</li> <li>8. Paid Salary ` 5000 नरेंद्र जनरल स्टोर्स की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन-देन का जर्नलाइज़ेशन करें। 1. नरेंद्र ने 80,000 रुपये नकद लेकर कारोबार शुरू किया 2. किरण से 40,000 रुपये का माल उधार खरीदा 3. 2,000 रुपये किराया दिया 4. श्री विकास को 55,000 रुपये का माल उधार बेचा 5. 18% जीएसटी दर पर 30,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा 6. श्री विकास से 25,000 रुपये का बियरर चेक प्राप्त किया 7. किरण को देना बैंक के चेक से 20,000 रुपये का भुगतान किया 8. वेतन 5000 रुपये का भुगतान किया
	ii.	What do you mean by accounting concepts? Explain various accounting concepts in detail. लेखांकन अवधारणाओं से आप क्या समझते हैं? विभिन्न लेखांकन अवधारणाओं को विस्तार से समझाइए।